



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण-

1) जनपद पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुल 37 अभियोग पंजीकृत करते हुए 138 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की गई व 20 अभियुक्तों के विरुद्ध 14(1) की कार्यवाही करते हुए 5,80,91,572/- रु (पांच करोड़ अस्सी लाख इक्यानवे हजार पांच सौ बहात्तर रुपये) की संपत्ति कुर्क की गई।

2) जनपद अंतर्गत नशीले पदार्थों (एनडीपीएस एक्ट) के विरुद्ध की गई कार्यवाही के क्रम में कुल 186 अभियोग पंजीकृत कर 199 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कुल 1209.900 किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद किए गए जिनकी अनुमानित कीमत 3,62,97,300/- (तीन करोड़ बासठ लाख सट्टानवे हजार तीन सौ) रुपये हैं।

3) जनपद में अवैध असलहों व असलहा फैक्ट्रियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के क्रम में 350 मुकदमा पंजीकृत किए गए, कुल 362 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 08 SSBL, 08 रिवाल्वर, 432 पिस्टल, 05 रायफल, 470 कारतूस, 329 किलोग्राम बिस्फोटक एवं 10 असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया गया साथ ही सोशल मीडिया पर अवैध असलहों के साथ प्रदर्शन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई।

4) प्रभावी पैरवी-जनपद पुलिस द्वारा सशक्त पैरवी के फल स्वरूप वर्ष 2022 में कुल 231 आरोपियों को कोर्ट से सजा सुनाई गई, जिसमें पॉक्सो एक्ट के 18 अभियोग में कुल 21 अभियुक्तों, दुष्कर्म के 17 अभियोग में कुल 21 अभियुक्तों, हत्या के 15 अभियोग में कुल 56 अभियुक्तों तथा डकैती के 02 अभियोग में कुल 24 अभियुक्तों में से 17 को आजीवन कारावास की सजा दिलायी गयी।

5) पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी-जनपद में कुल 45 पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दो 50 हजार के इनामिया अभियुक्त व चार 25 हजार के इनामिया अभियुक्त शामिल हैं साथ ही 20 अपराधी अदालत में हाजिर हुए हैं।

6) जुआ अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही में कुल 329 मुकदमा पंजीकृत किए गए एवं 1399 जुआरियों को गिरफ्तार कर 19,50,435/- रु0 बरामद किया गया।

7) जनपद अंतर्गत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध की गई कार्यवाही के क्रम में कुल 292 अभियोग पंजीकृत कर 995 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कुल 9315 लीटर अवैध शराब को बरामद किया गया जिसकी अनुमानित कीमत 27,94,500/- (सत्ताईस लाख चौरानवे हजार पांच सौ) रुपये हैं।

8) जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में कुल 1932 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।